



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 3, 1976/चैत्र 14, 1898

No. 179] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 3, 1976/CHAITRA 14, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके !

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April 1976

S.O. 281(E).—Whereas elections have been held in pursuance of the Notification No. S.O. 157(E), dated the 3rd March, 1976, issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seats of the members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal and the members of the electoral college of the Union territory of Delhi, and who retired on the 2nd April, 1976, on the expiration of their term of office, including the seat of a member representing the State of Maharashtra, who died on 4th July, 1975 and would have otherwise retired on 2nd April, 1976, and the seats of two members representing the State of Uttar Pradesh, of whom one died on 19th April, 1975 and the other resigned on 10th January, 1976 and both of whom would have otherwise retired on 2nd April, 1976;

And whereas the President has nominated to the Council of States four persons to fill the seats of the four nominated members of the Council of States who retired on the 2nd April, 1976 on the expiration of their term of office;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the said Act, the names of the members elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, and West Bengal and the members of the electoral college of the Union territory of Delhi and the names of the members nominated by the President under sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution are hereby notified for general information:—

Serial No. Name of Member

Andhra Pradesh

1. Shri V. B. Raju
2. Shri Prasad, K.L.N.
3. Shri Satyanarayana, Venigalla
4. Shri Mohamad Rahmathulla
5. Shri Palavalasa Rajasekharam
6. Shri M. R. Krishna

Assam

7. Shri Abdul Malik
8. Shri Bipin Pal Das

Bihar

9. Shri Bhola Prasad
10. Shri Mahendra Mohan Mishra
11. Shri Ramanand Yadav
12. Shri Dharam Chand Jain
13. Shri Bhola Paswan Shastri
14. Shri Bhishma Narain Singh
15. Shrimati Pratibha Singh
16. Shrimati Aziza Imam

Gujarat

17. Shri Adwani Lal Kishanchand
18. Captain Golandaz Mohammedhusain A. Samad
19. Kumari Joshi Kumudben Manishanker
20. Shri Makwana Yogendrakumar Mavjibhai

Haryana

21. Shri Bansi Lal

Himachal Pradesh

22. Shri Roshan Lal

Jammu and Kashmir

23. Shri Tirath Ram Amla
24. Shri Mehta Om Parkash

Karnataka

25. Shri Mulka Govinda Reddy
26. Shri R. M. Desai
27. Shri F. M. Khan
28. Shri K. S. Malle Gowda

Kerala

29. Shri S. Kumaran
 30. Shri K. K. Madhavan
 31. Shri Pattiam Rajan
-

Serial No. Name of Member

Madhya Pradesh

32. Shri Prakash Chand Sethi
 33. Shri Shrikant Verma
 34. Shrimati Ratankumari
 35. Shri Sawai Singh Sisodia
 36. Shri Balramdas Durgadas
 37. Shri Gurudev Gupta

Maharashtra

38. Shri Antulay A. Rahiman A. Gafar
 39. Kumari Khaparde, Saroj Purushottam
 40. Shri Gadgil, Vithal Narhar
 41. Shri Deshmukh, Bapuraoji Marotraoji
 42. Shri Mhaisekar, Govindrao Ramchandra
 43. Shri Vaishampayan, Sadashiv Krishnarao

Orissa

44. Shri Nilamoni Routaray
 45. Shri Narasingha Prasad Nanda
 46. Shri Santosh Kumar Sahu

Punjab

47. Shrimati Amarjit Kaur
 48. Shri Sat Paul
 49. Shri Raghbir Singh Gill

Rajasthan

50. Shrimati Ushi Khan
 51. Shri Dinesh Chandra
 52. Shri Mohammed Usman

Uttar Pradesh

53. Shri Krishna Nand Joshi
 54. Shri Ghayoor Ali Khan
 55. Shri Triloki Singh
 56. Shri Nageshwar Prasad Shahi
 57. Shri Prakash Mehrotra
 58. Shri Bhagwan Din
 59. Shri Bhanu Pratap Singh
 60. Shri Shyam Lal Yadav
 61. Shri Sunder Singh (Bhandari)
 62. Shri Suresh Narain Mulla
 63. Shrimati Hamida Habibullah

West Bengal

64. Shrimati Purabi Mukhopadhyay
 65. Shri Prasenjit Barman
 66. Shri Phanindra Nath Hansda
 67. Shri Bhupesh Gupta
 68. Shri Sankar Kumar Ghosh

Delhi

69. Shri Charanjit Chanana

MEMBERS NOMINATED BY THE PRESIDENT

70. Shrimati Maragatham Chandrasekhar
 71. Prof. Rasheeduddin Khan
 72. Shri Bhabendra Nath Banerjee
 73. Shri Bishambhar Nath Pande.
-

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य संचालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1976

का० आ० 281 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 157 (अ), तारीख 3 मार्च, 1976 के अनुसरण में, राज्य सभा के, आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उन सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1976 को निवृत्त हो गए, स्थानों को, जिनमें महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे सदस्य का, जिनकी मृत्यु 4-7-1975 को हो गई है और जो, अन्यथा 2 अप्रैल, 1976 को निवृत्त होते, स्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे दो सदस्यों के, जिनमें से एक की मृत्यु 19-4-1975 को हो गई है और दूसरे ने 10-1-76 को पद त्याग दिया है और जो दोनों ही सदस्य, अन्यथा, 2 अप्रैल, 1976 को निवृत्त होते, स्थान भी सम्मिलित है, भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचित हो गए हैं ;

और राष्ट्रपति ने राज्य सभा के चार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1976 को निवृत्त हो गए, स्थानों को भरने के लिए चार व्यक्तियों को राज्य सभा में नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 71 के अनुसरण में, आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम और संविधान के अनुच्छेद 80 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं :—

क्रम संख्या

सदस्य का नाम

आन्ध्र प्रदेश

- 1 श्री बी० बी० राजू
- 2 श्री प्रसाद, के० एल० एन०
- 3 श्री सत्यनारायण वेणिगल्ल
- 4 श्री मुहम्मद रहमतुल्ला
- 5 श्री पालवलसा राजसेखरम्
- 6 श्री एम० आर० कृष्णा

क्रम संख्या

सदस्य का नाम

छासाम

- 7 श्री अब्दुल मलिक
- 8 श्री बिपिन पाल दास

बिहार

- 9 श्री भोला प्रसाद
- 10 श्री महेन्द्र मोहन मिश्र
- 11 श्री रामानन्द यादव
- 12 श्री धरम चन्ध जैन
- 13 श्री भोला पासवान शास्त्री
- 14 श्री भीष्म नारायण सिंह
- 15 श्रीमती प्रतिभा सिंह
- 16 श्रीमती अजीजा इमाम

गुजरात

- 17 श्री आडवानी लाल किशनचन्द
- 18 श्री कैप्टन गोसन्दाज मुहम्मद हुसेन ए० समद
- 19 कुमारी जोशी कुमुदबेन मणि शंकर
- 20 श्री मकवाना योगेन्द्र कुमार भावजी भाई

हरियाणा

- 21 श्री बंसी लाल

हिमाचल प्रदेश

- 22 श्री रोशन लाल

जम्मू-कश्मीर

- 23 श्री तीरथ राम अमला
- 24 श्री मेहता ओझ्म प्रकाश

कर्नाटक

- 25 श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी
- 26 श्री आर० एम० देसाई
- 27 श्री एफ० एम० खान
- 28 श्री के० एस० भल्ले गौड़ा

क्रम संख्या

सदस्य का नाम

केरल

- 29 श्री एस० कुमारन
30 श्री के० के० माधवन्
31 श्री पट्टियम राजन्

मध्य प्रदेश

- 32 श्री प्रकाश चन्द सेठी
33 श्री श्रीकान्त वर्मा
34 श्रीमती रतन कुमारी
35 श्री सवाई सिंह सिसोदिया
36 श्री बलरामदास दुर्गादास
37 श्री गुरुदेव गुप्त

महाराष्ट्र

- 38 श्री भ्रतुले ए० रहीमन ए० गफूर
39 कुमारी खापरडे, सरोज पुरुषोत्तम
40 श्रीगाडगिल, विठ्ठल नरहर
41 श्री देशमुख, बापूरावजी भास्तरावजी
42 श्री महाहसेकर, गोविन्द राव रामचन्द्र
43 श्री वैशम्पायन सदाशिव, कृष्णाराव

उड़ीसा

- 44 श्री नील मणि रोटारे
45 श्री नरसिंह प्रसाद नदा
46 श्री सन्तोष कुमार साहू

पंजाब

- 47 श्रीमती अमरजीत कौर
48 श्री सतपाल
49 श्री रघबीर सिंह गिल

राजस्थान

- 50 श्रीमती उषा खान
51 श्री दिनेश चन्द्र
52 श्री मुहम्मद उसमान

क्रम संख्या

सदस्य का नाम

उत्तर प्रदेश

- 53 श्री कृष्ण नंद जोशी
 54 श्री गैयूर अली खां,
 55 श्री त्रिलोकी सिंह
 56 श्री नागेश्वर प्रसाद शाही
 57 श्री प्रकाश मेहरोला
 58 श्री भगवान दीन
 59 श्री भानुप्रताप सिंह
 60 श्री श्याम लाल यादव
 61 श्री सुंदरसिंह (भण्डारी)
 62 श्री सुरेश नारायण मुल्ला
 63 श्रीमती हमीदा हबीबुल्लाह

पश्चिमी बंगाल

- 64 श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय
 65 श्री प्रेसेनजीत बर्मन
 66 श्री फणिन्द्र नार्थ, हंसदा
 67 श्री भूपेश गुप्त
 68 श्री शंकर कुमार घोष

बिहारी

- 69 श्री चरणजीत चानना

राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

- 70 श्रीमती मरगथम् चन्द्रशेखर
 71 प्रो० रसीद उद्दीन खान
 72 श्री भवेन्द्र नाथ बनर्जी
 73 श्री विशम्भर नाथ पांडे

[सं० फा० 13 (1)/76-विधा-II]

ई० वेंकटेश्वरन्, संयुक्त सचिव ।

